

भारत का राजपत्र The Gazette of India




असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 406]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 2, 2002/वैशाख 12, 1924

No. 406]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2002/VAISAKHA 12, 1924

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2002

का. आ. 480(अ).—केन्द्र सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "रेलवे" शब्द के बाद अल्पविराम (कोमा) लग जाने की लिपिकीय भूल को परिशोधित करते हुए तथा उसकी जगह "रेलवे" शब्द के बाद संबंध कारक चिह्न (एपोस्ट्रॉफी) प्रतिस्थापित करती है। परिणामतः, निम्नांकित अधिसूचनाओं में जहां कहीं भी "रेलवे गुड्स शेड्स" या "रेलवे तथा गुड्स शेड्स" पदबंध आए, वहां "रेलवे का मालगोदाम" पद प्रतिस्थापित किए जाएं :

1. 2092 (अ) दिनांक 23-04-83
2. 765 (अ) दिनांक 11-08-87
3. 1009 (अ) दिनांक 07-12-89
4. 512 (अ) दिनांक 12-07-94
5. 593 (अ) दिनांक 12-08-98

साथ ही, केन्द्र सरकार आगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की अनुसूची के भाग-1 में कोष्ठकों, आंकड़ों तथा शब्दों (ii) गोदियों तथा पत्तनों के बाद "सभी अन्य मालगोदामों, गोदामों, भण्डारगृहों आदि में लदान तथा उतराई प्रचालन" नियोजन को शामिल करने के आशय की सूचना देती है ताकि उक्त नियोजन में अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण किया जा सके।

उक्त धाराओं द्वारा यथा अपेक्षित के अनुसार उपर्युक्त आशय की सूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की दिनांक 04-04-2001 की अधिसूचना का. आ. 319 (अ) द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

[संख्या एस-32019/9/97-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

जी. एस. राम, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2002

S.O. 480(E).—The Central Government in exercise of powers conferred by Section 10 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), hereby rectify the clerical mistake by deleting coma after the words "Railways" and substituting the same by apostrophes after the words "Railways". Consequently, wherever the words appearing as "Railways, Good Sheds" or "Railways and Good-sheds" in the following notification shall be substituted as "Railways' Goods-Sheds" :

1. 2092 (E) dated 23-04-1983
2. 765 (E) dated 11-08-1987
3. 1009 (E) dated 07-12-1989
4. 512 (E) dated 12-07-1994
5. 593 (E) dated 12-08-1998

The Central Government, further in exercise of powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), hereby add the employment "Loading and Unloading operation in all Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses etc." after the brackets, figure and words (ii) Docks and Ports appearing in the Part I of the Schedule to the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) so that minimum rates of wages should be fixed in the said employment under the Act.

The notice of above intention have already been given by notification of Government of India in the Ministry of Labour S.O. 319(E) dated 4-4-2001 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), as required by the said sections.

[F. N. S-32019/9/97-WC(MW)]

G. S. RAM, Labour and Employment Adviser